

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



लद्दाख का राजपत्र The Ladakh Gazette

एस.जी.-एल.डी.-अ.-14092023-1247
SG-LD-E-14092023-1247

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 12 सितंबर, 2023
LADAKH, TUESDAY, SEPTEMBER, 12, 2023

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

विद्युत विकास विभाग

11 सितंबर 2023

अधिसूचना

का. आ. 68 वितरण शाखा लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी), जिसका पंजीकृत कार्यालय, परिषद सचिवालय कुर्बाथांग विद्युत, कारगिल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, एक राज्य विद्युत विभाग है जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के निर्माण, परिचालन, रखरखाव एवं विकास की देखभाल कर रहा है। अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी), केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा स्थापित किए जाने वाले अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले किसी टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु टेलीग्राफ लाइनों एवं पोस्टों की स्थापना के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885

(1885 की संख्या 13) के तहत धारित टेलीग्राफ अधिकरण के अधीन कार्यों के समुचित समन्वय हेतु विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत की लाइनों अथवा विद्युत प्लांटों के स्थापन हेतु अथवा आवश्यक टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य हेतु विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 164 के तहत प्रदत्त सभी शक्तियों हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन को आवेदन करना चाहता है एवं यह एलपीडीडी, एनएचआईडीसीएल एवं पावरग्रिड के मध्य दिनांक 05 अगस्त 2022 द्वारा निम्न के निर्माण हेतु त्रिपक्षीय समझौते अनुसार निम्न पारेषण प्रोजेक्टों के लिए कमीशनिंग, परिचालन, रखरखाव एवं अन्य कार्यों के साथ सर्वेक्षण, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, उत्थापन एवं अन्य कार्यों को करेगी :

1. जोजी ला पूर्वी पोर्टल लोकेशन उपकेन्द्र - 21.865 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) पर 220/66 केवी द्रास उपकेन्द्र से 66/11 केवी उपकेन्द्र तक 66 केवी डी/सी लाईन (ओवरहेड भाग) ।
2. 220/66 केवी द्रास उपकेन्द्र से 66/11 केवी जोजी ला पूर्वी पोर्टल लोकेशन उपकेन्द्र -3.125 सर्किट किलोमीटर (अनुमानित) के आधे भाग में 66 केवी भूमिगत केबल ।
3. जोजी ला पूर्वी पोर्टल, मीना मार्ग द्रास पर 66/11 केवी उपकेन्द्र

लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी) ने प्रशासनिक सचिव, विद्युत विकास एवं नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा जारी आदेश संख्या 16 (पीडीडी) / यूटीएल/2022 दिनांक 01.08.2022 द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 68 की उप धारा (1) के तहत अनुमोदन पहले से प्राप्त कर लिया है।

उक्त पारेषण परियोजनाएँ नीचे दिए गए गाँवों की सीमा में स्थित भूमि / अचल संपत्ति से होकर या उसके नीचे से या उसके साथ-साथ या उसके आस-पास से होकर गुजरेंगी, जिसमें या जिस पर उक्त पारेषण परियोजनाओं की स्थापना और उसके रख-रखाव के उद्देश्य के लिए लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी) के पास भूमि और/या अचल संपत्ति का उपयोग करने की शक्ति होगी:

केंद्र शासित प्रदेश	जिला	तहसील	गांव
लद्दाख	कारगिल	द्रास	लंगथांग, केबीएस हिल, मामायोल हिल, पंद्रास, शाहीनबाग, मटायन, मीनार्मग चेक पोस्ट, मुगलपोरा

रूट एलाइनमेंट की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। जन साधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तावित पारेषण परियोजनाओं के संबंध में लिखित रूप में आपत्ति कर सकते हैं /प्रतिवेदन दे सकते हैं। अग्रिम विशेष सूचना और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:

नाम	श्री त्सेवांग पलजोर
पदनाम	मुख्य अभियंता वितरण, लद्दाख विद्युत विकास विभाग
कार्यालय पता	परिषद सचिवालय कुर्बाधांग, कारगिल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख -194103
ईमेल पता	cepdladakh@gmail.com
फोन नं./ फैक्स नं.	01985-233220
स्थान	लेह
तिथि	23-08-2023

Power Development Department
11th of September, 2023
NOTIFICATION

S.O. 68 Distribution Wing Ladakh Power Development Department (LPDD) having its Registered office at Council Secretariat Kurbathang, Kargil, Union territory of Ladakh, is the State Electricity Department, looking after construction, operations, maintenance and development of electrical transmission and distribution network in the Union territory of Ladakh. In discharge of its functions and duties Ladakh Power Development Department (LPDD) intends to apply to the Administration of Union territory of Ladakh, to confer upon it all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), for the placing of electric lines or electrical plants for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraphic Act, 1885 (No. 13 of 1885), with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Administration of Union territory of Ladakh or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission projects as per tripartite agreement between LPDD, NHIDCL, and POWERGRID, dated 5th August, 2022 for construction of :-

1. 66kV D/C line (overhead portion) from 220/66 kV Drass substation to 66/11 kV substation at Zoji La east portal location substation -21.865 CKM (approx.)
2. 66 kV Underground Cable in part portion of the 66kV D/C line from 220/66 kV Drass substation to 66/11 kV Zoji La east portal location substation- 3.125 CKM (approx.)
3. 66/11 KV Substation at Zojila Eastern Portal, Meena Marg Drass.

Ladakh Power Development Department (LPDD) has already received approval under sub-section (1) of section 68 of Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), vide ORDER NO-16 (PDD)/UTL of 2022 dated-01/08/2022 issued by Administrative Secretary, Power Development and New & Renewable Energy Department, Union territory of Ladakh.

The said transmission projects shall pass through over, under, along or across the lands/ immovable property in and around the area of and/or between the village's boundary, mentioned herein below, in or upon which Ladakh Power Development Department (LPDD) shall have power to use the land and/or immovable property for the purpose of establishment of the said Transmission Projects and Maintenance thereof:

Union territory	DISTRICT	TEHSIL	VILLAGES
Ladakh	Kargil	Drass	Lakthang, KBS Hill, Mamayoul Hill, Pandrass, Shahin bagh, Matiyen, Minamarg Check post, Mughalpora

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission projects within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarifications please contact:

Name	Shri. Tsewang Paljor
Designation	Chief Engineer Distribution, Ladakh Power Development Department
Office Address	Council Secretariat Kurbathang, Kargil, Union territory of Ladakh-194103
Email Address	cepdladakh@gmail.com
Phone No./Fax No.	01985-233220
Place	Leh
Date	

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."